## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज

पत्रांक- 58(३५०)

/ दिनांक .15.101.1.2025

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल अरेराज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदा0-सह0-सचिव,

ब्राडा, बिहार, पटना।

विषय:-

MMGSY. NDB (AWSESH) BRRP-2 योजनान्तर्गत राशि की अधियाचना के

संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY. NDB (AWSESH) BRRP-2

योजनान्तर्गत राशि का व्यय किया गया है।

अनुरोध है कि अधियाचना प्रपत्र में दर्शाये गये प्राप्त आवंटन एवं व्यय को मानते हुए अधियाचित राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। विदित हो कि कार्य का निरीक्षण किया गया जो संतोषप्रद है एवं पथ में ए०टी०आर० लंबित नहीं है।

- अनु0- 1) अधियाचना प्रपत्र।
  - 2) 19 ए प्रपत्र।
  - 3) मापी पुस्त की छाया प्रति।

विश्वासभाजन,

ग्रामीण कार्य विभाग, र्प्र प्रमंडल –अरेराज।

## Form GER 19-A

(See Government of India's Decision(1) bellow Rule – 150)
Form of utilization certificate up to the month of UP to Jan-2025

MMGSV NDR (AWSESH) PRDR 2

|     |                                 | MINIGSY NDB (AWSES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) BKKP-2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI  | Name of                         | Sanction No.&Date with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amount     | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No. | Scheme                          | Amount ( in Rs. Lacks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Received   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | )(*)(                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (in Rs.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 9.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lacks)     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | MMGSY NDB<br>(AWSESH)<br>BRRP-2 | Letter No 218 anu Dated 07-03- 2024 Rs-129.83185 Letter No 06 anu Dated 12-04-2024 Rs-136.67577 Letter No 56 anu Dated 19-07-2024 Rs-276.94829 Letter No 70 anu Dated 29-08-2024 Rs-18.23606 Letter No 94 anu Dated 23.10.2024 Rs-193.77554 Letter No 98 anu Dated 29.10-2024 Rs-266.57791 Letter No 113 anu Dated 04.12.2024 Rs-231.98577 Letter No 130 anu Dated 14.01.2025 Rs-458.62430 | 2167.45865 | Certified that of Rs 2167,45865 Lac of grants in said sanctioned upto Jan- 2025 in favour of RWD, W.D., Areraj sum of Rs 1708.82021 lacks has been utilized for the purpose of MMGSY NDB (AWSESH) BRRP-2 as given sanctioned and that the balance of RS- 458.63844 lacks Remaining will be utilized at the end of the period under report. |
|     | Total                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2167.45865 | 0.00 \$ 0.00 \$ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- 2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand's- in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ate being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned. Kinds of checks exercised:
  - a. Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
  - b. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
  - c. Construction material has been tested.
  - d. Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.
- 3. Physical Progress achieved:
  - e. Construction of The Road works
  - f. Construction of CD Works :-

g.

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION-ARERAJ.

|           | ω                                              |                                                                        |  | 2                                   |           | -                   | - |     | S.No.                 | 7                                                    | 2                              |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|---|-----|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           | Mohansahni To SH-74<br>Areraj Khajuriya Road   | . Mlahi Tola House Of<br>Mohansahni To SH -74<br>Areraj Khajuriya Road |  | Kharwati Tola To<br>Ramchuriya Math |           | Turaha Tola To Miya | 2 |     | Name of Road          |                                                      | Scheme Head:- MMGSY-NDB Awsesn |
| 266       | 1.030                                          | 1.030                                                                  |  | 0.580                               | 1.050     |                     |   |     | Length (in<br>KM)     |                                                      | D AMSCON                       |
| 305.006   | 120.840                                        |                                                                        |  | 59.776                              | 124.390   |                     |   |     |                       |                                                      |                                |
|           | 11- SBD/2023-24<br>15-03-2024                  |                                                                        |  |                                     |           |                     | L |     | 9                     | AA Amount (in Agreement No. lakh)                    |                                |
|           | MMGSY-<br>(AWSESH)-NDB-<br>BRRP2-378<br>Areraj |                                                                        |  |                                     |           |                     | , | •   | Package No.           |                                                      |                                |
|           | SUJIT KUMAR                                    |                                                                        |  |                                     |           |                     |   | ^   | Name of<br>Contractor |                                                      |                                |
| 268.28410 |                                                | 107.99614                                                              |  | 51.59065                            |           | 108.69731           |   | 6   | Main Work Amount      | Agreen<br>(in                                        | Estim                          |
| 24.32969  |                                                | 8.03703                                                                |  | 5.67528                             |           | 10.61738            |   | 7   | Maintenance           | Agreement value (in Lacs)                            |                                |
| 292.61379 |                                                | 116.03317                                                              |  | 57.26593                            | 119.31469 |                     |   | 00  |                       | Agreement<br>'Amount                                 |                                |
|           | 14-03-2025                                     |                                                                        |  |                                     |           |                     |   |     | 31                    | Date of<br>Completion                                |                                |
| 127.5388  |                                                | 21.84893                                                               |  | 51.44983                            |           | 54.24004            |   | 10  | 1                     | 2                                                    |                                |
| 127.5388  | 1000                                           | 21.84893                                                               |  | 51.44983                            |           | 54.24004            |   |     | :                     | Fund<br>Expence Till<br>Date(in Lacs)                |                                |
| T30.00400 | 150 89460                                      | 21.84893                                                               |  | 51.44983                            |           | 77.58584            |   | 7.1 | :                     | Fund Value of Expence Till measurement Date(in Lacs) |                                |
|           | 0.00000                                        |                                                                        |  | 0.00000                             |           | 23.34580            |   | 1.0 | 3                     | Demand                                               |                                |
|           |                                                |                                                                        |  |                                     |           |                     |   | 1   | 14                    | Remarks                                              |                                |

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Areraj

Division- Areraj